

**वाहन चोर गैंग के 04 शातिर चोर गैंग लीडर के साथ गिरफ्तार,05 अदद चोरी की मोटर साइकिले व एक अदद तमंचा तथा दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद**

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के मद्देनजर उक्त घटनाओं की रोक-थाम एवं चोरी गये वाहनों की बरामदगी व वाहन चोरो की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक मीरजापुर महोदय के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर/नगर के कुशल प्रयवेक्षण में वाहन चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात/थाना कोतवाली शहर व स्वाट टीम के द्वारा दिनांक 20.08.2019 को चेकिंग के दौरान मुखबीर खास के सूचना पर छितपुर तिराहे के पास पहुच हिकमत अमली का प्रयोग करते हुये एकाएक दबिश देकर मौके पर मौजूद 04 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया जो वही पर खड़ी चार मोटर साईकिल पर अलग-अलग टेक लगा कर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे तथा वही पर एक अन्य मोटर साईकिल साईड स्टैण्ड पर खड़ी थी। गिरफ्तार अभियुक्त शिव प्रसाद बिन्द के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों व उनके कब्जे से बरामदगी का विवरण निम्नवत है। जिनके विरुद्ध थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 256/19 धारा 3/25 आयु0अधिनियम व मु0अ0स0-255/19 धारा 41/411/414/419/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

विशेष विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त मजीद पूछ-ताछ की गयी तो अभियुक्त गण द्वारा बताया गया की हम सभी लोगो का एक गिरोह है। हम सब लोग मिलकर रेकी करते है व मौका देखकर गाड़ीया चुरा लेते है। चुराई गयी गाड़ीयों का नंबर प्लेट/ इंजन बदलकर उसको औने पौने दामों पर बेच देते है। और कभी कभी गाड़ीयों की अच्छी किमत नही मिलती है तो उससे खुद चलते है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. शिव प्रसाद बिन्द उर्फ डाक्टर पुत्र हरिओम निवासी लखमापुर थाना को0 देहात मीरजापुर।
2. शीतला बिन्द पुत्र जगरजीत बिन्द निवासी मटिखना थाना लालगंज मीरजापुर।
3. किशन बिन्द पुत्र देवीप्रसाद निवासी लखमापुर थाना को0 देहात मीरजापुर।
4. बलराम पुत्र रामनगीना सिंह निवासी मटिखना थाना लालगंज मीरजापुर।

विवरण बरामदगी-

1. एक अदद मो0सा0 वाहन संख्या- UP 63 N 0594 हिरो होण्डा CD डिलक्स रंग लाल,
2. एक अदद मो0सा0 वाहन संख्या- UP 63 S 2406 हिरो स्पेलडर प्रो0 काला रंग,
3. एक अदद मो0सा0 बिना नंबर हिरो HF डिलक्स लाल रंग,
4. एक अदद मो0सा0 बिना नंबर हिरो स्पेलडर काला रंग,
5. एक अदद मो0सा0 बिना नंबर की अपाचे सफेद रंग
6. एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस
7. चार अदद मोबाईल हैण्डसेट

8. कुल 870 रुपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान/ दिनांक व समय-

छितपुर तिराहा थाना को० देहात/ दिनांक-20.08.2019 समय -21.30 बजे

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी० राजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना को०शहर जनपद मीरजापुर।
2. उ०नि० संजीव कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद मीरजापुर।
3. उ०नि० अभिषेक सिंह थाना को०देहात जनपद मीरजापुर।
4. का० भूपेन्द्र सिंह स्वाट टीम, जनपद मीरजापुर।
5. का० बृजेश सिंह स्वाट टीम, जनपद मीरजापुर।
6. का० संदीप राय स्वाट टीम, जनपद मीरजापुर।
7. का० वीरेन्द्र सरोज स्वाट टीम, जनपद मीरजापुर।
8. का० धर्मवीर यादव स्वाट टीम, जनपद मीरजापुर।
9. का० अजय यादव सर्विलांस टीम,जनपद मीरजापुर।
10. का० धुव्र कुमार गिरी थाना को०शहर जनपद मीरजापुर

नोट- विभिन्न जनपदों से अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



